



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 40

अप्रैल 25, 2025

संख्या 17

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024	2025		घट - बढ़	
	अप्रैल 19	अप्रैल 11	अप्रैल 18	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3533149	3743990	3750858	6867	217709
1.1 संचलन में नोट	3533137	3743978	3750841	6864	217705
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	13	13	16	4	4
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	101	100	100	0	-1
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना		0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	43	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	944236	930387	909269	-21118	-34967
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8657	7927	7845	-82	-811
2.6 अन्य बैंक	54282	52963	52769	-194	-1512
2.7 अन्य	507201	440710	463871	23161	-43330
3 अन्य देयताएं	1752864	2286477	2316139	29662	563275
कुल देयताएं / आस्तियां	6800531	7462597	7500894	38297	700363
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4721081	4980958	4970772	-10186	249691
2 सोना	474181	688496	721972	33476	247791
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1354918	1611944	1617568	5625	262650
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	-	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	17496	35191	36792	1600	19295
4.3 नाबार्ड	-	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	85339	5779	24763	18984	-60576
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	140139	124783	113558	-11225	-26581
5 खरीद और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खज़ाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	5313	13382	13405	23	8093

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	अप्रैल 18, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	5857537	686145	23726	8310	145396	17819	512616	45812
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	4938465	578495	-10088	3516	87631	10938	256936	17635
1.2 स्वर्ण	721972	84572	33476	4575	53809	6396	247791	27764
1.3 विशेष आहरण अधिकार	158509	18568	532	212	3220	399	7980	534
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	38591	4510	-194	7	736	87	-90	-121

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

अप्रैल 18, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 931571 करोड़	2025													
	अप्रैल 5	अप्रैल 6	अप्रैल 7	अप्रैल 8	अप्रैल 9	अप्रैल 10	अप्रैल 11	अप्रैल 12	अप्रैल 13	अप्रैल 14	अप्रैल 15	अप्रैल 16	अप्रैल 17	अप्रैल 18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	953327	953646	937718	942962	940235	925590	937279	934253	931902	929434	928893	925757	924107	916176
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	102.3	102.4	100.7	101.2	100.9	99.4	100.6	100.3	100.0	99.8	99.7	99.4	99.2	98.3

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

यद	अप्रैल 04, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमा राशियां	341553	32139	17068	32139	62303	30014
1.2 बैंकों से उधार	105753	-6222	-6072	-6222	136030	-70604
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	23126	-6789	665	-6789	15046	-49990
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमा राशियां	23114977 (23055111)	534376	525882	534376	2553164 (2444380)	2113869 (2162787)
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		2.4	2.6	2.4	13.8 (13.3)	10.1 (10.4)
2.1.1 मांग	2778931	80882	149999	80882	374112	185079
2.1.2 मीयादी	20336046	453494	375883	453494	2179052	1928789
2.2 उधारियां	920055	4806	-3142	4806	273714	145255
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1023206	-38425	-41884	-38425	112358	127662
3 रिज़र्व बैंक से उधार	60031	-251435	-212199	-251435	-64480	49514
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	1007763	43474	625	43474	112802	-13777
4.1 उपलब्ध नकदी	77426	-4448	-204	-4448	-15017	-11802
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	930337	47922	829	47922	127819	-1975
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	227202	11401	1902	11401	5050	26973
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	35907	10069	17851	10069	-8451	5700
5.3 बैंकों को अग्रिम	42047	2543	1029	2543	5619	-7350
5.4 अन्य आस्तियां	69720	2367	-2112	2367	45738	-43592
6 निवेश	6664394 (6616628)	-33534	49385	-33534	632147 (544286)	508451 (548546)
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.5	0.8	-0.5	11.4 (9.9)	8.3 (9.0)
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6663616	-33682	49202	-33682	631790	508805
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	777	148	183	148	357	-354
7 बैंक ऋण	18405387 (17988785)	161414	153006	161414	2734613 (2210357)	1820217 (1927872)
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.9	0.9	0.9	19.7 (16.0)	11.0 (12.0)
7 क.1 खाद्य ऋण	29357	-7174	-1873	-7174	245	8148
7 क.2 खाद्येतर ऋण	18376030	168589	154878	168589	2734368	1812069
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	18050061	140210	124991	140210	2667868	1790767
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	82350	7387	7747	7387	26360	14136
7 ख.3 भुनाए गए	234613	13554	19038	13554	49618	18218
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	15512	390	464	390	-3883	-1364
7 ख.5 भुनाए गए	22850	-127	766	-127	-5350	-1540

1. 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विलय के प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

यद/समाप्त सप्ताह	2024	2025				
	अप्रैल 19	मार्च 21	मार्च 28	अप्रैल 04	अप्रैल 11	अप्रैल 18
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमा राशि अनुपात	5.06	4.28	..	4.37	..	..
	(5.03)	(4.27)	..	(4.36)	..	..
ऋण-जमा राशि अनुपात	77.36	79.14	..	78.03	..	..
	(79.48)	(80.79)	..	(79.63)	..	..
वृद्धिशील ऋण-जमा राशि अनुपात	25.33	89.18	..	31.12	..	..
	(21.97)	(86.06)	..	(30.21)	..	..
निवेश-जमा राशि अनुपात	29.36	29.53	..	28.70	..	..
	(29.63)	(29.66)	..	(28.83)	..	..
वृद्धिशील निवेश-जमा राशि अनुपात	16.45	29.49	..	-6.28	..	..
	(15.05)	(28.09)	..	(-6.28)	..	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	6.25	6.25	6.25	6.00	6.00
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ) दर*	6.25	6.00	6.00	6.00	5.75	5.75
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ) दर	6.75	6.50	6.50	6.50	6.25	6.25
बैंक दर	6.75	6.50	6.50	6.50	6.25	6.25
आधार दर	9.10/10.25	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.00/8.60	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45
सांविधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25
बचत जमा राशि दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/2.75
मांग मुद्रा दर (भारंकिट औसत)	6.49	6.34	6.35	6.09	6.00	5.85
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.88	6.51	6.52	6.30	6.03	5.94
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.03	6.61	6.52	6.29	6.10	6.02
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.06	6.54	6.47	6.30	6.09	6.02
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	7.18	6.65	6.62	6.53	6.48	6.41
संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया®						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पाट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.52	86.22	85.58	85.23	86.14	85.57
भारतीय रुपया-यूरो स्पाट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	88.89	93.35	92.32	94.34	97.11	97.26
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिआ 1-माह	1.16	4.46	3.12	3.03	2.59	2.50
3-माह	1.25	2.80	2.56	2.54	2.31	2.26
6-माह	1.40	2.36	2.28	2.39	2.19	2.11

*प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका डॉलर / भारतीय रुपया की होज़िर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फारवर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।

कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल हैं।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26*		2024		2025	
	मार्च 21	अप्रैल 04	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27214355 (27273801)	27782866 (27842733)	568512 (568932)	2.1 (2.1)	546855	2.2	568512 (568932)	2.1 (2.1)	2601205	11.4	2404394 (2355476)	9.5 (9.2)
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3620845	3649744	28900	0.8	20512	0.6	28900	0.8	130390	4.0	218957	6.4
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	2923841	83819	3.0	152630	5.9	83819	3.0	377962	16.0	184324	6.7
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20643062 (20702508)	21106073 (21165940)	463012 (463432)	2.2 (2.2)	381829	2.0	463012 (463432)	2.2 (2.2)	2077845	12.2	1984327 (1935408)	10.4 (10.1)
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	110426	103207	-7218	-6.5	-8116	-8.6	-7218	-6.5	15008	21.0	16787	19.4
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8135829 (8183590)	8501316 (8549082)	365487 (365492)	4.5 (4.5)	135339	1.8	365487 (365492)	4.5 (4.5)	277482	3.8	853961 (813866)	11.2 (10.5)
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1180870	1577390	396521		80338		396521		-273259		303840	
2.1.2 अन्य बैंक	6954959 (7002720)	6923925 (6971691)	-31034 (-31029)	-0.4 (-0.4)	55002	0.9	-31034 (-31029)	-0.4 (-0.4)	550741	9.5	550121 (510026)	8.6 (7.9)
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	18644339 (19065706)	18798081 (19214682)	153741 (148976)	0.8 (0.8)	149732	0.9	153741 (148976)	0.8 (0.8)	2221539	15.2	1976203 (1868548)	11.7 (10.8)
2.2.1 रिज़र्व बैंक	35823	21538	-14285		-2982		-14285		-8966		10114	
2.2.2 अन्य बैंक	18608516 (19029883)	18776543 (19193145)	168027 (163262)	0.9 (0.9)	152714	0.9	168027 (163262)	0.9 (0.9)	2230505	15.3	1966090 (1858435)	11.7 (10.7)
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5977361	6079051	101690	1.7	9408	0.2	101690	1.7	629914	12.7	502140	9.0
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36306	36306	0	0	0	0.0	0	0.0	3146	10.4	2874	8.6
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं	5579480 (5989161)	5631887 (6036388)	52407 (47227)	0.9 (0.8)	-252375	-5.1	52407 (47227)	0.9 (0.8)	530875	12.7	930784 (831952)	19.8 (16.0)
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	2159098	2205404	46306	2.1	7798	0.4	46306	2.1	167865	10.3	407473	22.7

*: 21 मार्च 2025 से संबंधित।

नोट: कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल हैं।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26*		2024		2025	
	मार्च 28	अप्रैल 18	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4836336	4861106	-13933	-0.3	28648	0.6	24770	0.5	238802	5.4	201012	4.3
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3720468	3787473	6864	0.2	55107	1.6	67005	1.8	111165	3.2	220905	6.2
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	1003762	969883	-21393	-2.2	-18275	-1.8	-33879	-3.4	109594	12.2	-37291	-3.7
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	112106	103750	597	0.6	-8184	-8.7	-8356	-7.5	18043	26.4	17398	20.1
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1388403	1626509	11524		28416		238106		-198470		404880	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1362162	1589760	9924		17520		227598		-212820		385585	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	11418	-186413	-19174		9829		-197831		7376		-150096	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-27049	-205693	-20042		13431		-178644		18364		-158571	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5526072	5692537	23315	0.4	-46743	-0.9	166464	3.0	565017	12.2	498197	9.6
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	36632			0	0.0	0	0.0	3146	10.4	3200	9.6
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	2126189	2308158	29598	1.3	-37145	-2.1	181969	8.6	138267	8.6	555169	31.7

*: 28 मार्च 2025 से संबंधित।

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	एसडीएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर				विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अप्रैल 14, 2025	-	-	-	-	8324	139007	-	-	-	-130683
अप्रैल 15, 2025	-	-	9564	-	32	177126	-	-	-	-167530
अप्रैल 16, 2025	-	-	10346	-	102	188292	194	-	-	-177650
अप्रैल 17, 2025	-	-	32245	-	2018	256201	-	-	-	-221938
अप्रैल 18, 2025	-	-	-	-	3	211023	-	-	-	-211020
अप्रैल 19, 2025	-	-	-	-	5036	134001	-	-	-	-128965
अप्रैल 20, 2025	-	-	-	-	4798	105973	-	-	-	-101175

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024		2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	फरवरी	मार्च	फरवरी	मार्च	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	185.8	185.8	192.5	192.0	-0.3	3.3	3.3
1.1 ग्रामीण	187.4	187.8	194.5	193.9	-0.3	3.2	3.2
1.2 शहरी	184.0	183.6	190.1	189.9	-0.1	3.4	3.4
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	139.2	138.9	142.8	..	..	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	151.2	151.4	154.8	154.5	-0.2	2.0	2.0
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	181.5	183.2	186.6	184.6	-1.1	0.8	0.8
3.2 ईंधन और बिजली	154.9	152.1	153.8	152.4	-0.9	0.2	0.2
3.3 विनिर्मित उत्पाद	139.8	140.1	143.8	144.4	0.4	3.1	3.1

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
अप्रैल 04, 2025	522897	32046	6.45 - 8.05
अप्रैल 18, 2025	518760	7213	6.43 - 7.37

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
मार्च 31, 2025	442893	77134	7.00 - 14.46
अप्रैल 15, 2025	521558	91006	6.31 - 11.65

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	अप्रैल 19, 2024	अप्रैल 11, 2025	अप्रैल 18, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	16675	25074	22900
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	6753	1582	11120
3 त्रिपक्षीय रेपो	745111	679080	827215
4 बाजार रेपो	715487	696512	810602
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	3449	6319	6241

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

अप्रैल 18, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	4
91-दिवसीय	12637	23228	24417	183717
182-दिवसीय	46504	62287	7632	215932
364-दिवसीय	69847	86096	45432	358432
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (अप्रैल 18, 2025 तक)	2024-25 (अप्रैल 19, 2024 तक)	2024-25	2025-26 (अप्रैल 18, 2025 तक)	2024-25 (अप्रैल 19, 2024 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	68000	68000	1400697	68000	68000	1039275
2. राज्य सरकारें	18300	24500	1073310	7520	17115	753345

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका (<https://rbi.org.in/web/rbi/-/publications/a-handbook-on-rbi-s-weekly-statistical-supplement-15762>) में उपलब्ध है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <https://data.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

शरथी जी. वि. नखेल, निदेशक छा भारतीय रिजर्व बैंक, शहीद भगतसिंह मागथ, फोटथ, मंबुई - 400 001 की ओर से संपादित एवं परथकाशित है।